

# Lam

## Chapter 5

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

זָכַר	יָהוּוָה	מָה	הָיָה	לָנוּ	(הַבֵּיטָה)	וּרְאָה	אֶת־	הַרְפָּתָנוּ:
स्मरण-कर	यहोवा	क्या-	हुआ-है	हमें	—	और-देख	की	हमारी-निन्दा
<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5027</a>	<a href="#">H5027</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2781</a>

हे यहोवा, हमारे साथ जो घटा है, याद रख। हे यहोवा, हमारे तिरस्कार को देख।

נִחַלְתָּנוּ	נִהַפְכָה	לְזָרִים	בְּתֵינוּ	לְנֹכְרִים:
हमारी-विरासत	पलट-गई-है	परदेशियों-के-लिए	हमारे-घर	विदेशियों-के-लिए
<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H2015</a>			<a href="#">H5237</a>

हमारी धरती परायों के हाथों में दे दी गयी। हमारे घर परदेशियों के हाथों में दिये गये।

יְתוּמִים	הֵינּוּ	(אִין)	אָב	אִמְתָּינוּ	כְּאֵלֵמוֹת:
अनाथ	हम-हो-गए-हैं	—	पिता	हमारी-माताएं	विधवाओं-की-तरह
<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H0490</a>

हम अनाथ हो गये। हमारा कोई पिता नहीं। हमारी माताएं विधवा सी हो गयी हैं।

מִימֵינוּ	בְּכֶסֶף	שָׁתִינוּ	עָצִינוּ	בְּמַחִיר	יָבֵאוּ:
हमारा-पानी	चांदी-से	हम-पीते-हैं	हमारी-लकड़ी	दाम-पर	आती-है
<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H8354</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H4242</a>	<a href="#">H0935</a>

पानी पीने तक हमको मोल देना पड़ता है, इंधन की लकड़ी तक खरीदनी पड़ती हैं।

עַל	צָוָארֵנוּ	נָרְדָּפוּנוּ	יִנְעֵנוּ	(לֹא]	(וְלֹא)	הוּנַח	לָנוּ:
पर	हमारी-गर्दन	हमें-पीछा-किया-जाता-है	हम-थके-हैं	—	और-नहीं	आराम-मिला	हमें
		<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H3021</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5117</a>	

अपने कन्धों पर हमें जुए का बोझ उठाना पड़ता है। हम थक कर चूर होते हैं किन्तु विश्राम तनिक हमको नहीं मिलता।

מִצָּרִים	נָתַנוּ	דָּ	אֲשׁוּר	לְשָׁבַע	לָחֶם:
मिस्र	हमने-दिया	हाथ	अशूर-को	तृप्त-होने-के-लिए	रोटी-से
<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0804</a>	<a href="#">H7646</a>	<a href="#">H3899</a>

हमने मिस्र के साथ एक वाचा किया; अशूर के साथ भी हमने एक वाचा किया था कि पर्याप्त भोजन मिले।

אֲבֹתֵינוּ	קָטְאוּ	אִינָם]	(וְאִינָם)	[אֲנַחְנוּ]	(וְאֲנַחְנוּ)	עֹנִיתִיהֶם	סָבְלָנוּ:
हमारे-पिता	पाप-किए	—	और-वे-नहीं-हैं	—	और-हम	उनके-अधर्मों-को	उठाते-हैं
<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0587</a>	<a href="#">H0587</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H5445</a>

हमारे पूर्वजों ने तेरे विरोध में पाप किये थे। आज वे मर चुके हैं। अब वे विपत्तियाँ भोग रहे हैं।

עֲבָדִים	מְשָׁלוּ	כָּנוּ	פָּרַק	אִין	מִיָּדָם:
दास	शासन-करते-हैं	हम-पर	छुड़ानेवाला	नहीं-है	उनके-हाथ-से
<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H4910</a>		<a href="#">H6561</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H3027</a>

हमारे दास ही स्वामी बने हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमको उनसे बचा ले।

בְּנַפְשׁוֹ	נָבִיא	לְחַמְנוּ	מִפְּנֵי	קָרַב	הַמְדָּבָר:
अपनी-जान-पर	हम-लाते-हैं	हमारी-रोटी	सामने-से	तलवार-के	जंगल-की
<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H2719</a>	

बस भोजन पाने को हमें अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ता है। मरुभूमि में ऐसे लोगों के कारण जिनके पास तलवार है हमें अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ता है।

10  
 עֲרֻנּוֹ עֲרֻנּוֹ עֲרֻנּוֹ עֲרֻנּוֹ עֲרֻנּוֹ עֲרֻנּוֹ  
 हमारी-खाल हमारी-खाल हमारी-खाल हमारी-खाल हमारी-खाल हमारी-खाल  
 תַּנְדּוּר תַּנְדּוּר תַּנְדּוּר תַּנְדּוּר תַּנְדּוּר תַּנְדּוּר  
 तंदूर-की-तरह तंदूर-की-तरह तंदूर-की-तरह तंदूर-की-तरह तंदूर-की-तरह तंदूर-की-तरह  
 נִכְמָרוּ נִכְמָרוּ נִכְמָרוּ נִכְמָרוּ נִכְמָרוּ נִכְמָרוּ  
 जलती-है जलती-है जलती-है जलती-है जलती-है जलती-है  
 מִפְּנֵי מִפְּנֵי מִפְּנֵי מִפְּנֵי מִפְּנֵי מִפְּנֵי  
 सामने-से सामने-से सामने-से सामने-से सामने-से सामने-से  
 זְלַעְפוֹת זְלַעְפוֹת זְלַעְפוֹת זְלַעְפוֹת זְלַעְפוֹת זְלַעְפוֹת  
 तपन-की तपन-की तपन-की तपन-की तपन-की तपन-की  
 רָעֵב רָעֵב רָעֵב רָעֵב רָעֵב רָעֵב  
 भूख-की भूख-की भूख-की भूख-की भूख-की भूख-की  
 H7458 H2152 H6440 H3648 H8574 H5785

हमारी खाल तन्दूर सी तप रही है, हमारी खाल तप रही उस भूख के कारण जो हमको लगी हैं।

11  
 נְשִׁים נְשִׁים נְשִׁים נְשִׁים נְשִׁים נְשִׁים  
 स्त्रियां स्त्रियां स्त्रियां स्त्रियां स्त्रियां स्त्रियां  
 בְּצִיּוֹן בְּצִיּוֹן בְּצִיּוֹן בְּצִיּוֹן בְּצִיּוֹן בְּצִיּוֹן  
 सियोन-में सियोन-में सियोन-में सियोन-में सियोन-में सियोन-में  
 עֲנִו עֲנִו עֲנִו עֲנִו עֲנִו עֲנִו  
 अपमानित-की-गई अपमानित-की-गई अपमानित-की-गई अपमानित-की-गई अपमानित-की-गई अपमानित-की-गई  
 בְּתִלְתֵּי בְּתִלְתֵּי בְּתִלְתֵּי בְּתִלְתֵּי בְּתִלְתֵּי בְּתִלְתֵּי  
 कुवारियां कुवारियां कुवारियां कुवारियां कुवारियां कुवारियां  
 בְּעָרֵי בְּעָרֵי בְּעָרֵי בְּעָרֵי בְּעָרֵי בְּעָרֵי  
 नगरों-में नगरों-में नगरों-में नगरों-में नगरों-में नगरों-में  
 יְהוּדָה יְהוּדָה יְהוּדָה יְהוּדָה יְהוּדָה יְהוּדָה  
 यहूदा-के यहूदा-के यहूदा-के यहूदा-के यहूदा-के यहूदा-के  
 H3063 H1330 H6726 H0802

सियोन की स्त्रियों के साथ कुकर्म किये गये हैं। यहूदा की नगरियों की कुमारियों के साथ कुकर्म किये गये हैं।

12  
 שָׂרִים שָׂרִים שָׂרִים שָׂרִים שָׂרִים שָׂרִים  
 हाकिम हाकिम हाकिम हाकिम हाकिम हाकिम  
 בְּיָדָם בְּיָדָם בְּיָדָם בְּיָדָם בְּיָדָם בְּיָדָם  
 उनके-हाथ-से उनके-हाथ-से उनके-हाथ-से उनके-हाथ-से उनके-हाथ-से उनके-हाथ-से  
 נִתְּלוּ נִתְּלוּ נִתְּלוּ נִתְּלוּ נִתְּלוּ נִתְּלוּ  
 लटकाए-गए लटकाए-गए लटकाए-गए लटकाए-גए लटकाए-गए लटकाए-गए  
 פִּי פִּי פִּי פִּי פִּי פִּי  
 मुख मुख मुख मुख मुख मुख  
 זְקָנִים זְקָנִים זְקָनִים זְקָנִים זְקָנִים זְקָנִים  
 बूढ़ों-के बूढ़ों-के बूढ़ों-के बूढ़ों-के बूढ़ों-के बूढ़ों-के  
 לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא  
 नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं  
 נִהְדָּרוּ נִהְדָּרוּ נִהְדָּרוּ נִהְדָּרוּ נִהְדָּרוּ נִהְדָּרוּ  
 सम्मानित-किए-गए सम्मानित-किए-गए सम्मानित-किए-गए सम्मानित-किए-गए सम्मानित-किए-गए सम्मानित-किए-गए  
 H1921 H3808 H2205 H6440 H8518 H3027 H8269

हमारे राजकुमार फाँसी पर चढ़ाये गये; उन्होंने हमारे अग्रजों का आदर नहीं किया।

13  
 בְּחֹרִים בְּחֹרִים בְּחֹרִים בְּחֹרִים בְּחֹרִים בְּחֹרִים  
 जवान जवान जवान जवान जवान जवान  
 טַחֲוֹן טַחֲוֹן טַחֲוֹן טַחֲוֹן טַחֲוֹן טַחֲוֹן  
 चक्की चक्की चक्की चक्की चक्की चक्की  
 נִשְׂאוּ נִשְׂאוּ נִשְׂאוּ נִשְׂאוּ נִשְׂאוּ נִשְׂאוּ  
 उठाते-हैं उठाते-हैं उठाते-हैं उठाते-हैं उठाते-हैं उठाते-हैं  
 וְנַעֲרִים וְנַעֲרִים וְנַעֲרִים וְנַעֲרִים וְנַעֲרִים וְנַעֲרִים  
 और-लड़के और-लड़के और-लड़के और-लड़के और-लड़के और-लड़के  
 כְּשָׁלוֹ כְּשָׁלוֹ כְּשָׁלוֹ כְּשָׁלוֹ כְּשָׁלוֹ כְּשָׁלוֹ  
 लड़खड़ाते-हैं लड़खड़ाते-हैं लड़खड़ाते-हैं लड़खड़ाते-हैं लड़खड़ाते-हैं लड़खड़ाते-हैं  
 H3782 H6086 H5288 H5375 H2911 H0970

हमारे वे शत्रुओं ने हमारे युवा पुरुषों से चक्की में आटा पिसवाया। हमारे युवा पुरुष लकड़ी के बोझ तले ठोकर खाते हुये गिरे।

14  
 זְקָנִים זְקָנִים זְקָנִים זְקָנִים זְקָנִים זְקָנִים  
 बूढ़े बूढ़े बूढ़े बूढ़े बूढ़े बूढ़े  
 מִשְׁעָר מִשְׁעָר מִשְׁעָר מִשְׁעָר מִשְׁעָר מִשְׁעָר  
 फाटक-से फाटक-से फाटक-से फाटक-से फाटक-से फाटक-से  
 שָׁבְתוּ שָׁבְתוּ שָׁבְתוּ שָׁבְתוּ שָׁבְתוּ שָׁבְתוּ  
 हट-गए हट-गए हट-गए हट-गए हट-גए हट-गए  
 בְּחֹרִים בְּחֹרִים בְּחֹרִים בְּחֹרִים בְּחֹרִים בְּחֹרִים  
 जवान जवान जवान जवान जवान जवान  
 מִנְּגִינָתָם מִנְּגִינָתָם מִנְּגִינָתָם מִנְּגִינָתָם מִנְּגִינָתָם מִנְּגִינָתָם  
 अपने-संगीत-से अपने-संगीत-से अपने-संगीत-से अपने-संगीत-से अपने-संगीत-से अपने-संगीत-से  
 H5058 H0970 H8179 H2205

हमारे बुजुर्ग अब नगर के द्वारों पर बैठा नहीं करते। हमारे युवक अब संगीत में भाग नहीं लेते।

15  
 שָׁבְתָה שָׁבְתָה שָׁבְתָה שָׁבְתָה שָׁבְתָה שָׁבְתָה  
 बंद-हो-गया बंद-हो-गया बंद-हो-गया बंद-हो-गया बंद-हो-गया बंद-हो-गया  
 מְשֻׁשׁ מְשֻׁשׁ מְשֻׁשׁ מְשֻׁשׁ מְשֻׁשׁ מְשֻׁשׁ  
 आनन्द आनन्द आनन्द आनन्द आनन्द आनन्द  
 לִבְנוֹ לִבְנוֹ לִבְנוֹ לִבְנוֹ לִבְנוֹ לִבְנוֹ  
 हमारे-हृदय-का हमारे-हृदय-का हमारे-हृदय-का हमारे-हृदय-का हमारे-हृदय-का हमारे-हृदय-का  
 נִדְּבַל נִדְּבַל נִדְּבַל נִדְּבַל נִדְּבַל נִדְּבַל  
 बदल-गया बदल-गया बदल-गया बदल-गया बदल-गया बदल-गया  
 הַלְלוּ הַלְלוּ הַלְלוּ הַלְלוּ הַלְלוּ הַלְלוּ  
 शोक-में शोक-में शोक-में शोक-में शोक-में शोक-में  
 מִחֻלּוֹ מִחֻלּוֹ מִחֻלּוֹ מִחֻלּוֹ מִחֻלּוֹ מִחֻלּוֹ  
 हमारा-नाच हमारा-नाच हमारा-नाच हमारा-नाच हमारा-नाच हमारा-नाच  
 H4234 H0060 H2015 H4885

हमारे मन में अब कोई खुशी नहीं है। हमारा हर्ष मरे हुए लोगों के विलाप में बदल गया है।

16  
 נִפְּלָה נִפְּלָה נִפְּלָה נִפְּלָה נִפְּלָה נִפְּלָה  
 गिर-गया गिर-गया गिर-गया गिर-गया गिर-गया गिर-गया  
 עֲטָרַת עֲטָרַת עֲטָרַת עֲטָרַת עֲטָרַת עֲטָרַת  
 मुकुट मुकुट मुकुट मुकुट मुकुट मुकुट  
 רִאשֵׁנוּ רִאשֵׁנוּ רִאשֵׁנוּ רִאשֵׁנוּ רִאשֵׁנוּ רִאשֵׁנוּ  
 हमारे-सिर-से हमारे-सिर-से हमारे-सिर-से हमारे-सिर-से हमारे-सिर-से हमारे-सिर-से  
 אֵי- אֵי- אֵי- אֵי- אֵי- אֵי-  
 हाय- हाय- हाय- हाय- हाय- हाय-  
 גַּא גַּא גַּא גַּא גַּא גַּא  
 अब अब अब अब अब अब  
 לָנוּ לָנוּ לָנוּ לָנוּ לָנוּ לָנוּ  
 हमें हमें हमें हमें हमें हमें  
 כִּי כִּי כִּי כִּי כִּי כִּי  
 क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्योंकि  
 חַטָּאנוּ חַטָּאנוּ חַטָּאנוּ חַטָּאנוּ חַטָּאנוּ חַטָּאנוּ  
 हमने-पाप-किया हमने-पाप-किया हमने-पाप-किया हमने-पाप-किया हमने-पाप-किया हमने-पाप-किया  
 H2398 H4994 H0188 H5850 H5307

हमारा मुकुट हमारे सिर से गिर गया है। हमारी सब बातें बिगड़ गयी हैं, क्योंकि हमने पाप किये थे।

17  
 עַל- עַל- עַל- עַל- עַל- עַל-  
 पर- पर- पर- पर- पर- पर-  
 זֶה זֶה זֶה זֶה זֶה זֶה  
 इस इस इस इस इस इस  
 הָיָה הָיָה הָיָה הָיָה הָיָה הָיָה  
 हुआ-है हुआ-है हुआ-है हुआ-है हुआ-है हुआ-है  
 רָוָה רָוָה רָוָה רָוָה רָוָה רָוָה  
 बेहेश बेहेश बेहेश बेहेश बेहेश बेहेश  
 לִבְנוֹ לִבְנוֹ לִבְנוֹ לִבְנוֹ לִבְנוֹ לִבְנוֹ  
 हमारा-हृदय हमारा-हृदय हमारा-हृदय हमारा-हृदय हमारा-हृदय हमारा-हृदय  
 עַל- עַל- עַל- עַל- עַל- עַל-  
 पर- पर- पर- पर- पर- पर-  
 אֵלָּה אֵלָּה אֵלָּה אֵלָּה אֵלָּה אֵלָּה  
 इन इन इन इन इन इन  
 חֲשָׁכָה חֲשָׁכָה חֲשָׁכָה חֲשָׁכָה חֲשָׁכָה חֲשָׁכָה  
 अंधेरी-हो-गई अंधेरी-हो-गई अंधेरी-हो-गई अंधेरी-हो-गई अंधेरी-हो-गई अंधेरी-हो-गई  
 עֵינֵינוּ עֵינֵינוּ עֵינֵינוּ עֵינֵינוּ עֵינֵינוּ עֵינֵינוּ  
 हमारी-आँखें हमारी-आँखें हमारी-आँखें हमारी-आँखें हमारी-आँखें हमारी-आँखें  
 H2821 H0428 H1739 H1961 H2088

इसलिये हमारे मन रोगी हुए है; इन ही बातों से हमारी आँखें मद्धिम हुई है।

18  
 עַל- עַל- עַל- עַל- עַל- עַל-  
 पर- पर- पर- पर- पर- पर-  
 הָרַר- הָרַר- הָרַר- הָרַר- הָרַר- הָרַר-  
 पहाड़- पहाड़- पहाड़- पहाड़- पहाड़- पहाड़-  
 צִיּוֹן צִיּוֹן צִיּוֹן צִיּוֹן צִיּוֹן צִיּוֹן  
 सियोन-के सियोन-के सियोन-के सियोन-के सियोन-के सियोन-के  
 שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה  
 जो-उजाड़-है जो-उजाड़-है जो-उजाड़-है जो-उजाड़-है जो-उजाड़-है जो-उजाड़-है  
 שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה שְׁשָׁמָה  
 लोमड़ियां लोमड़ियां लोमड़ियां लोमड़ियां लोमड़ियां लोमड़ियां  
 הִלְכוּ- הִלְכוּ- הִלְכוּ- הִלְכוּ- הִלְכוּ- הִלְכוּ-  
 चलती-हैं- चलती-हैं- चलती-हैं- चलती-हैं- चलती-हैं- चलती-हैं-  
 בּוֹ: בּוֹ: בּוֹ: בּוֹ: בּוֹ: בּוֹ:  
 उस-पर उस-पर उस-पर उस-पर उस-पर उस-पर  
 H1980 H7776 H8074 H6726 H2022

सियोन का पर्वत विरान हो गया है। सियोन के पहाड़ पर अब सियार घूमते है।

19  
 אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ  
 तू तू तू तू तू तू  
 יְהוָה יְהוָה יְהוָה יְהוָה יְהוָה יְהוָה  
 यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा  
 לְעוֹלָם לְעוֹלָם לְעוֹלָם לְעוֹלָם לְעוֹלָם לְעוֹלָם  
 सदा-के-लिए सदा-के-लिए सदा-के-लिए सदा-के-लिए सदा-के-लिए सदा-के-लिए  
 תִּשָּׁב תִּשָּׁב תִּשָּׁב תִּשָּׁב תִּשָּׁב תִּשָּׁב  
 विराजमान-है विराजमान-है विराजमान-है विराजमान-है विराजमान-है विराजमान-है  
 כִּסְאָךָ כִּסְאָךָ כִּסְאָךָ כִּסְאָךָ כִּסְאָךָ כִּסְאָךָ  
 तेरा-सिंहासन तेरा-सिंहासन तेरा-सिंहासन तेरा-सिंहासन तेरा-सिंहासन तेरा-सिंहासन  
 לְרָר לְרָר לְרָר לְרָר לְרָר לְרָר  
 पीढ़ी-से पीढ़ी-से पीढ़ी-से पीढ़ी-से पीढ़ी-से पीढ़ी-से  
 נִדְּרוּ: נִדְּרוּ: נִדְּרוּ: נִדְּרוּ: נִדְּרוּ: נִדְּרוּ:  
 पीढ़ी-तक पीढ़ी-तक पीढ़ी-तक पीढ़ी-तक पीढ़ी-तक पीढ़ी-तक  
 H1755 H1755 H3678 H3427 H5769 H3068

किन्तु हे यहोवा, तेरा राज्य तो अमर हैं। तेरा महिमापूर्ण सिंहासन सदा—सदा बना रहता है।

יָמֵי:	לְאַרְבָּ	תְּעֹזְבֵנוּ	תִּשְׁכַּחֵנוּ	לְנֶצַח	לְמָה	20
दिनों-की	लम्बाई-के-लिए	तू-हमें-त्याग-देगा	तू-हमें-भूल-जाएगा	सदा-के-लिए	क्यों-	
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0753</a>		<a href="#">H7911</a>	<a href="#">H5331</a>	<a href="#">H4100</a>	

हे यहोवा, ऐसा लगता है जैसे तू हमको सदा के लिये भूल गया है। ऐसा लगता है जैसे इतने समय के लिये तूने हमें अकेला छोड़ दिया है।

כְּקֶדֶם:	יָמֵינוּ	תָּרַשׁ	(וְנִשְׁוֹבָה)	אוֹנֵשׁוּב	אֵלַי	וַיְהוּה	הַשִּׁיבֵנוּ	21
पुराने-समय-की-तरह	हमारे-दिनों-को	नया-कर	और-हम-लौटेंगे	—	अपनी-ओर	यहोवा	हमें-लौटा	
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2318</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7725</a>	

हे यहोवा, हमको तू अपनी ओर मोड़ ले। हम प्रसन्नता से तेरे पास लौट आर्येंगे; हमारे दिन फेर दे जैसे वह पहले थे।

מְאֹד:	עַד-	עָלֵינוּ	קָצַפְתָּ	מֵאֲסִתָּנוּ	מֵאִס	אִם-	כִּי	22
बहुत	तक-	हम-पर	तू-क्रोधित-है	तूने-हमें-त्याग-दिया-है	पूरी-तरह	यदि-	क्योंकि	
<a href="#">H3966</a>	<a href="#">H5704</a>		<a href="#">H7107</a>					

क्या तूने हमें पूरी तरह बिसरा दिया तू हम से बहुत क्रोधित रहा है।